

ALLIANCE INTEGRATED METALIKS LIMITED

Regd. Office: 5th Floor, Unit No 506, Building No 57, Manjusha Building, Nehru Place, New Delhi - 110019

Tel.: +91-11-40517610, E-mail: alliance.intgd@rediffmail.com Web: www.aiml.in

CIN: L65993DL1989PLC035409

Ref. No.: AIML/BSE/2020-21

December 03, 2020

To

The Manager
Listing Department
BSE Limited,
Phiroze Jee Jee Bhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400001

Scrip code: 534064

Sub.: <u>Newspaper Advertisement pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copy of the newspaper publication of the Notice of 31st Annual General Meeting, E-Voting and Book Closure in English Daily Newspaper ("Financial Express") and Hindi Daily Newspaper ("Jansatta").

You are requested to kindly take the same on record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Alliance Integrated Metaliks Limited

Saurabh Kumar Jain Company Secretary

Chandigarh-160002

ited Sd/-

rya

ctor

213

D

066

3,

N

Visual

liance ar No

and

ct the of the which

g-with

ose Ease of

Annual

M and

pany's ble on

bsite latform

ers can ve web

ogin by npany's

ankit at

to vote embers

ay, 24'

ary and

system

period

00 A.M

:00 P.M

and time allowed

aid date

nembers

vho have

wise not

may also

Company

ng shares

sword by

ered with

or casting

rill remain

ooth days Dividend

ister their

shares in

ncial Year

FAQs) for section of

23541234

remote e

M may be ue Textiles

andewalar

Limited

Sd/-

55 ehalf of

VM

M; and

For and on behalf of Vastram Worldwide Private Limited

Prakash Radheshyam Mishra

(DIRECTOR) DIN: 07286217

(CIN: L65993DL1989PLC035409)

Regd. Office: 5th Floor, Unit No. 506, Building No. 57, Manjusha Building, Nehru Place, New Delhi - 110019 E-mail: alliance.intgd@rediffmail.com; Website: www.aiml.in ; Tel. No.:011-40517610

NOTICE OF 31ST ANNUAL GENERAL MEETING, E VOTING AND BOOK CLOSURE NOTICE OF 31ST ANNUAL GENERAL MEETING, E VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given to the Members of Alliance Integrated Metaliks Limited("Company") that
the 31st Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Thursday
24" December, 2020 at 11.30 a.m.(IST) through Video Conferencing /Other Audio Visual
Means (OAVM) in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013
and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI")
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General
Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020
and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, and other applicable circulars issued by
the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant
circulars").

orspensed with vide MCA Criticals and the SED Criticals.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant, applicable rules, as amended and Regulation 42 of Securities And Exchange Board Of India (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015 notice is also given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from

Further pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read Further pursuant to the provisions of section 106 of the Companies Act, 2013 the Act 18au with, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended and substituted by Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of Securities And Exchange Board Of India (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the 31th Annual facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the 31th Annual General Meeting (AGM) by electronic means (remote e-voting). The facility for online voting through electronic means shall also be made available at the AGM and Members who have already cast their votes through electronic mode during the schedule voting period prior to the already cast their votes through electronic mode during the schedule voting period prior to the date of the meeting will not be entitled for online voting as on the date of the AGM. Members participating through the VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (hereinafter referred as "CDSL") as agency to provide remote e-voting facility. The details pursuant to the provisions of the Act & Rules are given

- The remote e-voting period commences on 21st December, 2020 & ends on 23st December, 2020. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, along with person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date of 17th December, 2020 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through electronic means.
- www.aimLin and CDSL website www.evotingindia.com and also at BSE Website www.bseindia.com.
- be entitled to cast their vote again through online voting
- If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual analysis at www.evotingindia.com, under help section or write an email to epotest e-roting CodsIndia.com or contact Mr. Nittin Kunder (022-23058738) or Mr. Merboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542)

FOR ALLIANCE INTEGRATED METALIKS LIMITED

Daljit Singh Chahal

intec

MPANIES

Sapne Aapke, Bharosa Apno Ka

S.No.

INTEC CAPTAL LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC057410

08, Manjusha, 57 Nehru Place, New Delhi-110019

1-11-46522200/300; F - +91-1146522333

Website: www.inteccapital.com

SNNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING

AND BOOK CLOSURE

AND BOOK CLOSURE

Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video nd Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, at 12:00 noon (IST) in compliance with the applicable nies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder and the Board of India (Listing Obligations and Disclosures ns, 2015 read with General Circular No. 14/2020 dated April Date : r No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20 (collectively referred to as "MCA Circulars") issued by the 24 prate Affairs ('MCA') and Circular No. 3/P/2020)79 dated May 12, 2020 issued by the Securities Email andia ("SEBI Circular") (collectively referred to as "relevant business set out in Notice calling the AGM, Members will be

NOTICE sigh VC/OVAM. Members participating through VC/OVAM Credis Upr the purpose of quorum under section 103 of the Act. Registered tice of the 26th AGM and the Annual Report for the financial NewDebe sent to all the members on Wednesday, 2nd December, registered with the company / Depository Participant(s).
ng physical copy of notice of AGM and Annual report to the
nsed with vide MCA Circulars as mentioned above.

ion of Section 108 of the act read with Rule 20 of the the Company and Administration) Rules ,2014 (as amended) and Rules 20 ting Obligation and Disclosure Requirements) Regulation Requared ased to offer remote e-voting facility to the members to on reso tes electronically from a place other than the venue of the Company all resolutions set forth in the Notice of the 26th AGM, as authorized te of AGM . For this purpose the company has signed an The deta Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating

The red are hereby further informed that:

There beriod shall start at 10:00 A.M. on Wednesday, 23rd

The rend at 05:00 P.M. on Friday, 25th December 2020. The The Cut be allowed after 05:00 P.M. Friday, 25th December 2020 AGM is led by CDSL.

Monday, 28" D

Place : New D Date : Decem

members or in the register of members or in the register of tained by the depositories as on the cut off date i.e. Any per 2020 shall be entitled to avail the facility of remote edispate. Decem 3 AGM. The detailed procedure /instructions for remote e-(along ontained in the notice of AGM.

at evolus shares of the Company and becomes member of the The No of the notice of AGM and holding shares as on the cut-off website December, 2020, required to follow the instructions of NSDL. However if you are already registered with CDSL for

For e-ru can use your existing user ID and password for casting in the No

voting meast their vote by remote e-voting and are present in the Section shall be eligible to vote through e-voting at the AGM.

990 OR their vote by remote e-voting prior to the AGM may also Also can /C/OVAM but shall not be entitled to cast their vote again.

The and annual report are available on the website of the Dececcapital.com and website of BSE Limited i.e. mer notice of the AGM is also available on the website of The es (India) Limited (CDSL) i.e. www.evotingindia.com.

attertaining to voting by electronic means, the members may (iii) A paed questions and remote e-voting user manual for beneww.evotingindia.com under help section or email at

entadia.com. or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or 10. In case d22-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) members to company secretary at the company email address

section of apital.com. Book Closure bers & Share Transfer Books will remain closed from Act, 2013 and)20 to Saturday, 26th December, 2020 (Both days and Disclosure e AGM.
Transfer Book

By the order of the Board For Intec Capital Limited Sd/-

Sanjeev Goel **Managing Director** DIN: 00028702

ALLIANCE INTEGRATED METALIKS LIMITED

The Company has on 01" December, 2020 duly completed the dispatch of Notice to Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Share Transfer Agent and Depositories along with E-voting Instructions, dated 27" November, 2020 for 31" Annual General Meeting for Financial Year 2019-20 by electronically along with the details of Login ID and Password. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circular.

18" December 2020 to 24" December 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM

- 3. Any Person who have acquired shares and became member after the dispatch of the Notice of the AGM but before the 'Cut-off Date' may obtain their user ID and Password for evoting from the Company's Registrars & Share Transfer Agent, M/s. Beetal Financial & Computer Services (P) Limited, Beetal House, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind Local Shopping Center, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi–110062, Tel: 011-29961281-83 Email: beetaltal@gmail.com. However, if the member is already registered with CDSL for remote e-voting then he/she can use his/her exiting user ID and password for casting the world hypothetical. the vote through e-voting.
- 4. The Notice of AGM and the Annual Report 2019-20 is available at company's website at
- For detailed instructions pertaining to remote e-voting, Members may refer in the section Notice of the 31st AGM.
- Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the meeting may also join in the meeting through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (OAVM) but shall not

Chairman cum Whole Time Director DIN: 03331560

Anil Dutt Director 1568921

Place: New Delhi Date: 02.12.2020

ग स्थिर रही।

OMAXE

TED (CIN: L74899HR1989PLC051918) No.19- B, First Floor, Omaxe Celebration Mail, Road, Gurugram-122001, Haryana exe House, 7, LSC, Kalkaji, New Delhi-110019 41896680-85 Fax: +91-11-41896799 exe.com | Email: secretarial_1@omaxe.com

31st ANNUAL GENERAL MEETING, FORMATION AND BOOK CLOSURE

panies Art, 2013 (the 'ACT') and Rules framed thereunder and the re Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with of Corporate Affairs ("MCA Circular") and also Circulars issued by the ia ("SEBI Circulars"), Notice is hereby given that the 31st Annual mbers of Ornaxe Limited ("Company") will be held on Thursday, rough Video Conferencing (Other Audio Video Means ("VC"/OAVM") of the members at the common venue to transact the Ordinary and e convening the said AGM.

MCA vide its Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. ular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and SEBI Circular dated May 12, the Balance sheet as at March 31, 2020, Statement of Profit & Loss for the Schedules thereto and Reports of Board of Directors & Auditors. aining therein the instruction for e-voting and participation in the AGM ode to those Members whose email IDs are available with the nce with the aforesaid MCA diroulars & SEBI circulars. The electronic bers has been completed on December 2, 2020. The Notice of the 19-20 is also available on the Company's website www.omaxe.com i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at com respectively, and on the website of Link Intime Private Limited at

enies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and anies Act, 2013 redu with rule 20 in the Configuration and Obscibsure Requirements) leased to provide the facility to Members to exercise their right to vote solutions to be passed at AGM. The votter gright of Members shall be d by the members as on the cut-off date which is Friday, December 18, rded in the register of members or in the register of beneficial owners cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting

on Monday, December 21, 2020 at 9.00 a.m. (IST) and ends on 5.00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled by Link Intime eafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the change it subsequently. The members who may have cast their vote pate in the AGM through VC/OAVM facility but shall not be allowed to facility during the AGM

the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the cut-off data i.e. Friday, 18 December, 2020, may obtain the login ID at insterneet@linkintime.co in or contact on 022-49186000.

please refer to the detailed instructions for e-voting which forms part of please reter to the detailed instructions for evoluting which controlled to feeling before exercising your voting right. In case of any queries, you estions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members. meet linkinime co in under the Help & FAQ's Section or you can contact e-mail ID instameet@linkintime.co.in, who will address the grievances he Members may also write to the Company Secretary at

their email ID with the depository participants, are requested to register erticipants in respect of shares held in electronic form and in respect of quested to submit their request with their valid email ID to our RTA at gomaxe.com along with signed scanned copy of the request letter o number, self-attested PAN copy and copy of share certificate. Those er e-mail address, mobile number, postal address, and hank account date their registered details by contacting their Depository Participant in or by contacting our RTALink Intime India Private Limited.

M through VC/ OAVM at https://instameet.linkintime.co.in_by using their nd selecting the 'Event' for Company's AGM. Members who do not have ing or have forgothen the User ID and Password may retrieve the same by

assistance before or during the AGM, can contact RTA at https://

VC / OAVM shall open 15 minutes before the time scheduled for the AGM on first come first serve basis. Members, who would like to ask questions er themselves as a speaker by sending their request from their registered me, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, on the e.com or by downloading and installing the Webex application by clicking mydownloads.html/ from December 18, 2020 at 9,00 am 1,5,T, to T. Those Members who have registered themselves as a speaker only uring the 31st AGM, depending upon the availability of time, however, it is recisely and in short at the time of meeting to enable us to answer the right to restrict the number of speakers depending on the availability of

in 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42of the SEBI (Listing nents) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer dosed from Saturday December 19, 2020 to Thursday, the December 24, ection with Annual General Meeting and annual closing.

By order of the Board For Omaxe Limited

(Rohtas Goel) Chariman & Managing Director

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 02.12.2020

सभी ऑपक्का/वादमण सियन्त्र webexapplication/software डाउनलाड कर;
 सुनवाई की अगली विधि अर्थात् र्यजस्ट्रागरिकवरी अधिकारी-1/तथा रिकवरी अधिकारी-11 हारा विधार की जाने वाली मामलों के

लए मीटिंग आईडी तथा पास्वर्ड डीआरटी की आधिकारिक पोर्टल अर्थात् drt.gov.in पर सार्वजनिक सूचना शीर्ष के अंतर्गत आगामी तिथि के एक दिन पूर्व उपलब्ध होगी।

iii) किसी भी प्रकार की आकरिमकताओं के लिये अधिवक्ता/वादीगण फोन नं. 23748469 पर संबंधित अधिकारी से सम्पर्क कर सकते

मेरे हाथ में तथा इस अधिकरण की मुहर लगाकर आज 17 नवम्बर, 2020 को दी गई।

सहायक र्राजस्ट्रार, डीआरटी-111, नई दिल्ली के लिए

एलायंस इंटीग्रेटेड मेटलिंक्स लिमिटेड (सीआईएन : L65993DL1989PLC035409) पंजीकृत कार्यालयः 5वीं मंजिल, यूनिट नं. 506, बिल्डिंग नं. 57, मंजूषा बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 ई-मेल आईडी: alliance.intgd@rediffmail.com; वेबसाइट: www.aiml.in, दूरभाष नं. : 011-40517610

31वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा एलायंस इंटीग्रेटेड मेटलिंक्स लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों को सूचित किया जाता है वि की 31वीं वार्षिक आम बैठक कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं उसके तहत निर्मित नियमों एवं कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय ('एमसीए') द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 एवं सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (''सेबी'') (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा अन्य प्रयोज्य परिपत्रों एवं सेवी (सामृहिक रूप से 'प्रासंगिक परिपत्र सन्दर्भित) के अनुपालन में बृहस्पतिवार, 24 दिसम्बर, 2020 को 11.30 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.) पर वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य दृश्य श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से संचालित की जायेगी।

कम्पनी ने अपने उन सदस्यों के पास वित्त वर्ष 2019-20 हेतु 31वीं वार्षिक आम बैठक की विधिवत पूर्ण सूचना एवं ई-वोटिंग निर्देश, दिनांक 27 नवम्बर, 2020 भेजने का कार्य 1 दिसम्बर, 2020 को पूर कर लिया है जिनके ई-मेल पते कम्पनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट तथा डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं, जिसे लॉगिन विवरण एवं पासवर्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा गया है। एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र के अनुसार एजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता नहीं है। यथासंशोधित प्रासंगिक प्रयोज्य नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा ९१ एवं भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार एतद्वारा यह सूचना भी दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर

एवं शेयर अन्तरण पुस्तिकाएं एजीएम के उद्देश्य से 18 दिसम्बर, 2020 से 24 दिसम्बर, 2020 (दोनों

तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी। पुनः यथासंशोधित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 तथा कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 द्वारा प्रतिस्थापित के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 108 एवं भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार कम्पनी 31वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में पारित होने वाले प्रस्तावित संकल्पों पर अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों (''रिमोट ई-वोटिंग'') सुविधा प्रदान कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जायेगी और जिन सदस्यों ने पहले ही बैठक की तिथि के पूर्व निर्धारित वोटिंग अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मतदान कर लिये हैं वे एजीएम की तिथि पर ऑनलाइन वोटिंग के पात्र नहीं होंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की परिगणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के लिए की जाएगी। कम्पनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविदा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में सेंट्रल डिपॉजिटीर सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (इसके पश्चात 'सीडीएसएल' संदर्भित) की सेवाएं ग्रहण की हैं। अधिनियम

एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार विवरण निम्नलिखित हैं 1. रिमोट ई-वोटिंग अवधि 21 दिसम्बर, 2020 को प्रारम्भ होगी और 23 दिसम्बर, 2020 को समाप्त होगी। इसके पश्चात रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यृल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा।

2. कम्पनी के सदस्य जिनके पास शेयर भौतिक प्रारूप या अभौतिक प्रारूप में है और जिन व्यक्तियों के नाम कट–ऑफ तिथि 17 दिसम्बर, 2020 तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम में वोटिंग की

 कोई व्यक्ति जो शेयर अर्जित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के उपरान्त किन्तु 'कट-ऑफ तिथि' से पूर्व सदस्य बन जाता है वह कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट, मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एण्ड कमप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, निकट दादा हरसुखदास मन्दिर, नई दिल्ली-110062, दूरभाष : 011 29961281- 83 ई-मेल : beetalrta@gmail.com से यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। किन्तु यदि सदस्य पहले से रिमोट ई-वोटिंग हेतु सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो वह ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने हेतु अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।

4. एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 कम्पनी की वेबसाइट www.aiml.in तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com और बीएसई की वेबसाइट Website www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

5. रिमोट ई-वोटिंग से सम्बन्धित विस्तृत निर्देश के लिए सदस्य 31वीं एजीएम की सूचना में 'सूचना खण्ड का संदर्भ ले सकते हैं।

6. जिन सदस्यों ने बैठक से पूर्व ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर लिया है वे भी वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य दृश्य श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक में उपस्थित हो सकते हैं किन्तु वे पुनः ऑनलाइन मतदान नहीं कर सकते हैं।

7. यदि एजीएम में उपस्थित होने तथा ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग से सम्बन्धित कोई पूछताछ या समस्या है तो आप हेल्प खण्ड के तहत www.evotingindia.com पर उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्वड क्वेश्चन्स ('एफएक्यू') एवं ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथव helpdesk.evoring@cdslindia.com को मेल करें या सम्पर्क करें : श्री नितिन कुंदर (022-23058738) या श्री महबूब लखानी (022-23058543) या श्री सकेश दलवी (022-23058542).

कृते एलायंस इंटीग्रेटेड मेटलिक्स लिमिटेड

दलजीत सिंह चहल चेयरमैन सह पूर्ण कालिक निदेशक डीआईएन: 03331560

-मेल द्वारा भेजी जा चुकी है, जिनका ई-मेल पता अल्ट्रा जीवद्ध है। ईजीएम की सूचना की भौतिक प्रति भेजने सीआड़ी सर्कुलर के माध्यम से समाप्त कर दी गई है।

7 दिसम्बर, 2020 को भौतिक रूप में अथवा अभौतिक जीएम की सूचना में सूचीबद्ध विशेष व्यवसाय के संबंध मह प्राइवेट लिमिटेड ("लिंक इनटाइम") की रिमोट ई-मेल से इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। सभी सदस्यों

क्र वसाय इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से

को पूर्वा. 9.00 बजे (भामास) आरंभ होगी; को अप. 5.00 बजे (भामास) समाप्त होगी;

और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग निष्क्रिय कर दी 2014 के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और (ए) के बार वोट डालने के बाद उसमें परिवर्तन करने की

अल्ट्रा चोटिंग द्वारा वोट देने के लिए पात्रता निर्धारण हेतु पंजी. का दिसम्बर, 2020 है;

पजा. व /ईजीएम में ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने का हकदार दिल्ली-का अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लामार्थी स्वामियों ॉफ-डेट) 17 दिसम्बर, 2020 को मीजूद होगा।

सामान्य 🗷 के बाद सदस्य ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग का

"दिल्ली नान अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी ईजीएम में में दोबारा मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा अक्तूबर 17 दिसम्बर, 2020 को शेयरधारक है ई-मेल असाधारण अनुरोध भेजकर अपनी यूजर आईडी तथा पासवर्ड के अनुस्मिवत जो ई-वोटिंग के लिए लिंक इनटाइम के साथ परिवर्तन - मन यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग वोट डालने

अधिनियम संदेह या शिकायत की स्थिति में, सदस्यगण सरकार के के हेल्पसेक्शन देखें अथवा श्री राजीव रंजन कंपनी के इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-101, 247 परिवर्तन इट, मुंबई-400083 से सम्पर्क नंबर 022-49186000 अपनी आप्-in) पर सम्पर्क करें अथवा कम्पनी से सम्पर्क करें। दस्य, जिनके द्वारा अपना ई-मेल पता कम्पनी में से चौदह हो ईजीएम की सूचना तथा / अथवा ई-वोटिंग सहित बी-2 विंग, से ईजीएम से जुड़ने के लिए लॉगइन विवरण प्राप्त कम्प्लैक्स, मेल पता कम्पनी में पंजीकृत करवा सकते हैं। इस

कारण तथा पता और पंजीकृत करवाने हेतु ई-मेल पता कें कारण तथा पत्र की स्कैन की गई प्रति, पेन कार्ड और सदस्य के शपथ-पत्र स्तावेज की स्व सत्यापित प्रति ई-मेल द्वारा कम्पनी डाक द्वारा om पर भेज सकते है। डीमैट रूप में शेयरों के धारक भन उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के पास

(www.m साथ उसके इट www.jslstainless.com पर तथा लिंक इनटाइम ntime.co.in पर भी उपलब्ध है।

ोटिंग के पर्यवेक्षण के लिए श्री संदीप गर्ग, अधिवक्ता विजनेस टॉर

पर भेजनी Jisistainless.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंज की w.bseindia.com पर भी उपलब्ध है, जहां कम्पनी के

अल तिथि: 03.1 स्थानः नई

कृते जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड (नवनीत रघुवंशी) कंपनी सचिव

विकाश 32, ब्रास मार्केट, मॉडल टाउन के सामने, रेवाड़ी 123401 13(4) के अंतर्गत अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत केनरा बैंक (पूर्व में सिंडिके हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा को जारी कर ऋणधारक को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 ी

ऋणधाना को सचित किया जाता है कि आज, 27 नवम्बर, 2020 को अर्थेहं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां

विशेष संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का गादि के लिये केनरा बैंक (पूर्व में- सिंडिकेट बैंक), शाखाः मॉडल ।

ऋणधार_{प्रनियम} की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति

		बकाया राशि	मांग सूचना तिथि:
	ऋणधारकमकान	27.11.2020 को रु.	27.8.2019
	हरीश कुम् _{हल्ला} 39 ⁸ 1/32 चुन्नी मीहल्ला टं पूर्वः गारन्टरः ⁸ कान।	21,70,572.91 (रुपये इक्कीस लाख सत्तर हजार पांच सौ बहत्तर एवं पैसे इक्यानवे मात्र) तथा उस पर ब्याज	भौतिक कब्जा की तिथि: 27.11.2020
	तिथि: 3.1	प्राधिकृत अधिकारीः केनरा बैंक	